
BIHAR SPONGE IRON LIMITED

REGISTERED OFFICE & PLANT : UMESH NAGAR, CHANDIL-832401, DISTT. SARAIKELA- KHARSAWAN, JHARKHAND
Ph. +91 9955542302 E-mail: companysecretary@bsil.org.in / bsilchandil@gmail.com / Web : bsil.org.in
CIN: L27106JH1982PLC001633

BSIL/CS/SE/2022

Dated: 26th May, 2022

The General Manager
Listing Centre
BSE Limited
P J Towers, Dalal Street,
MUMBAI- 400 001

**Subject - Publication of Audited Financial Results for the
Quarter and Year ended on 31st March, 2022.**

Scrip Code - 500058

Dear Sir/Madam,

Publications of audited Financial Results pursuant to Clause 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have pleasure to furnish herewith paper clippings of audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2022, published in newspapers – Financial Express - English and Naya India - Hindi, Ranchi edition on Wednesday the 26th May, 2022.

The same will also be available on Company's website at www.bsil.org.in.

The above is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bihar Sponge Iron Limited



Vimal Prasad Gupta
Company Secretary &
Compliance Officer

Attached – As above

Canara Bank
BRANCH OFFICE : SIRSA-II

NOTICE

The District MAGISTRATE Sirsa has appointed the undersigned as Duty Magistrate vide its order Endst. No. 1409-11 / PESH Dated 27-04-2022 given U / S 14 SARFAESI ACT 2002 FOR TAKING POSSESSION OF SECURED ASSETS MORTGAGED IN NON PERFORMING LOAN ACCOUNT OF M/S Dass Textiles Sirsa behind Surya Hotel , Grewal Basti Sirsa Haryana (HR) at Canara Bank City Thana Road Sirsa (HR) as per details given below :

DETAILS OF PROPERTY : Equitable mortgage of property at behind Surya Hotel, Grewal Basti, Sirsa Haryana, Vide sale Deed No. 1173 dated 15.05.2013 duly registered in the office of Sub Registrar Sirsa and Mutation No. 11084, comprised in khewat No. 717/94, khasra No. 259/2 (20-19) vide jamabandi for the year 2011-12 , admeasuring 00Marla 04 Sarsal, detailed as Commercial property measuring 120 sqft being 4/3771, share of 20k - 19Marla , comprised in khewat No. 717/1094, Khasra No. 259/2 (20-19) , Situated at behind Surya Hotel, Grewal Basti, Sirsa. Through this notice I call upon borrowers/ Guarantors to peacefully hand - over possession of the assets mortgaged for securing loan (s) as detailed above within 15 days from the date of publication of this notice . Failing which physical possession shall to be taken by use of such force as may be required thereafter on any working day without any further notice .

Dated : 25.05.2022 **Duty Magistrate**

E-Auction SALE NOTICE
SAINSONS PULP AND PAPERS LIMITED (IN LIQUIDATION)
Reg. Off. : H. No. 1086, Sector 7, Panchkula, Haryana
Liquidator : Manjul Mittal

Liquidator Correspondence Address: 3rd Floor, Manmohan House, 2581/3B/1, Near Zoom Building, Industrial Area-A, Transport Nagar, Ludhiana-141003.
Email: liq.sainsonspulp@gmail.com Contact No. 9814280802

E-Auction
Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Date of Auction : 15.06.2022 Time of Auction : 3.00 pm to 4.00 pm
(With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by Sainsons Pulp and Papers Limited (In Liquidation) forming part of Liquidation Estate of Sainsons Pulp and Papers Limited, in possession of the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh vide order dated 21.12.2021. The sale of properties will be done by the undersigned through the e-auction platform <https://bankauctions.in>

ASSET	Reserve Price	EMD	Rs. in Lacs Incremental Value
Land measuring 06-55-68 hectares and Building & Shed at Village Mahal Tahsil Niala, Tehsil Haroki, Distt Una, built on part of Land measuring 06-55-68 hectare in the name of Sainsons Pulp and Papers Limited. Land bearing survey numbers 1. 607, 608, 609, 610, 611, 615/3/1 on 7/7/2008 vide deed no. 867; 2. 615/3/2 on 04/08/2010 vide deed no. 856; 3.139, 141 on 04/08/2010 vide deed no. 2107. Building of the Corporate Debtor is having constructed area of 9761 sq. meters for Paper Plant, comprises of the admin office, Industrial buildings, and other structures.	818.50	81.85	1.00

Terms and Condition of the E-auction are as under: 1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/s BankAuctions in 2. Last date for receipt of EOI and EMD is 10.06.2022 by 5.00pm. 3. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website <https://bankauctions.in>. 4. For further clarifications, please contact the undersigned.

Sd/- Manjul Mittal
Liquidator
IBBI/IPA-001/IP-P00061/2017-18/10139
Email : liq.sainsonspulp@gmail.com
Date : 26.05.2022
Place : Ludhiana

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

LEGAL & RECOVERY DEPARTMENT

Head Office: Mangaluru - 575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

Regd. & Head Office P. B. No. 599, Mahaveera Circle
Kankanady Mangaluru - 575 002, Phone: 0824-2228488/104
Website: www.karnatakabank.com Email : legal.recovery@kibkbank.com

1. Mr. Vishnu Singh
S/O Mr. Gautam Singh

1. Mrs. Abhilasha Singh
W/o Vishnu Singh

Both residing at: House No. 391, Street No- 8, Block- K Mahalpur, South West Delhi, New Delhi- 110037

Sir/Madam,
The Term Loan A/c No. 5677001600004101 dated 24.11.2016 for Rs.50,00,000.00, the facility availed at Malviya Nagar Branch- New Delhi by **You No.1) Mr. Vishnu Singh** is the borrower and **You No. 2) Mrs. Abhilasha Singh** is the joint borrower, have been classified as **Non-Performing Asset on 31.03.2021 w.e.f. 24.12.2020** and that action under SARFAESI Act has been initiated by issuing a detailed Demand Notice under Section 13(2) & (3) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 by the Authorised officer of the Bank on **12.10.2021** to the parties concerned. The said Demand Notice sent by speed post with acknowledgments to above mentioned addresses, have been returned undelivered. Hence, we have published the contents of the Demand Notice by way of this Notice by observing the procedures laid down in the SARFAESI Act 2002. The balance as on **12.10.2021** in the Term Loan A/c No. **5677001600004101** was **Rs. 51,38,808.12** with future rate of interest @ 9.25% compounded monthly with effect from 24.09.2021. You are called upon to pay the same within 60 days from the date of this paper publication.

Brief description of mortgaged properties

All that piece & Parcel of Residential Apartment No. 310 on 3rd Floor, Block-B in project Gaur Cascades situated at Raj Nagar Extension NH-58, Ghaziabad (U.P.) measuring 1444 Sq Ft super area belonging **Mr. Vishnu Singh & Mrs. Abhilasha Singh**. Please note that I, the Authorised Officer of the secured creditor Bank intend to enforce the aforesaid securities in the event of failure to discharge your liabilities in full on or before the expiry of 60 days from the date of this publication.

Place : Mangaluru **Sd/- For Karnataka Bank Ltd**
Date : 25.05.2022 **Chief Manager & Authorised Officer**

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Entities) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF INTECO SPECIAL MELTING TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of corporate debtor	INTECO SPECIAL MELTING TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of corporate debtor	13/04/2012
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies (Delhi) under The Companies Act-1956
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U27100DL2012PT(C234322)
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	1103, ANTRIKSH BHAWAN 22, KG MARG, CONNAUGHT PLACE DELHI-110001
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	Date of Receipt: 20.05.2022 Date of Receipt of Order: 23.05.2022
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	19.11.2022 (180 days from the commencement of CIRP)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Satish Kumar Mathur IBBI/IPA-002/IP-N00132/2017-18/10348
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: Flat No. 803 A, Plot No.27, New Jyoti Society, Sector 4, Dwarka, New Delhi- 110078. Email: mathurk1255@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: Flat No. 803 A, Plot No.27, New Jyoti Society, Sector 4, Dwarka, New Delhi- 110078. Email: crp_smtpl@gmail.com
11. Last date for submission of claims	06.06.2022 (Copy of NCLT order dated 20.05.2022, received by IRP on 23.05.2022)
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Based on limited information there is no class of creditors under section 21 (bA)(b)
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not applicable
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: https://ibbi.gov.in/downloadforms.html Physical address: Not applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal New Delhi B IV has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the INTECO SPECIAL MELTING TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED on 20.05.2022 (Copy of order dated 20.05.2022 received on 23.05.2022)

The creditors of INTECO SPECIAL MELTING TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 6th June 2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry number 10. The Financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit their claims with proof in person, by post or electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 25th May 2022
Place: New Delhi

Name and signature of Interim Resolution Professional
SATISH KUMAR MATHUR
In the matter of INTECO SPECIAL MELTING TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED

BIHAR SPONGE IRON LIMITED
CIN: L27106JH1982PLC001633
REGISTERED OFFICE & PLANT : Umesh Nagar , Chandil, District Sarakela Kharsawan, Jharkhand-832401.
PH. +91 9955542302 E-Mail : companysecretary@bsil.org.in, Website : www.bsil.org.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022.

S.No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		
		31st March, 2022	31st Dec, 2021	31st March, 2021	31st March, 2022	31st March, 2021
		Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	6,531.40	642.02	869.20	9,458.02	2,429.65
2	Net Profit / (Loss) for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	259.87	50.34	179.18	817.17	433.67
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	269.39	50.34	194.53	826.69	396.14
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	269.39	50.34	194.53	826.69	396.14
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	269.39	50.34	194.53	826.69	396.14
6	Equity Share Capital	9,020.54	9,020.54	9,020.54	9,020.54	9,020.54
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)	0.30	0.06	0.22	0.92	0.44
a	Basic	0.30	0.06	0.22	0.92	0.44
b	Diluted	0.30	0.06	0.22	0.92	0.44

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & yearly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.bsil.org.in.
- The above audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their meetings held on 25th May, 2022.
- The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (As amended) thereon.

For BIHAR SPONGE IRON LIMITED
Sd/-
UMESH KUMAR MODI
CHAIRMAN AND PRESIDENT
(DIN: 00002757)

Place: New Delhi
Date : 25th May, 2022

PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD.
(Formerly Known as Dewan Housing Finance Corporation Ltd.)
CIN : L65910MH1984PLC032639

Registered Office : Unit No.-601, 6th Floor, Piramal Amli Building, Piramal Agastya Corporate Park, Kaman Junction, Opp. Fire Station, LBS Marg, Kuria (West), Mumbai - 400070. | T +91 22 3802 4000

Branch Office : Plot No-6, Block A, Sector-2, Noida, U.P-201 301

Contact Person : 1. Kishalay Kartkey- 9999702914. 2. Ajay Ahlawat-9999737756
3. Rohan Sawant- 9833143013

E-Auction Sale Notice - Fresh Sale

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Piramal Capital & Housing Finance Limited (Formerly Known as DHFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the physical possession, on "As Is Where Is Basis", "As Is What Is Basis" and "Whatever Is There Is Basis", Particulars of which are given below:

Loan Code / Branch Name/ Borrower(s) / Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Final Property Address	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP)	Outstanding Amount (29-04-2022)
Loan Code No. 00041501, Delhi (Branch), Praveen Kumar Sinha (Borrower), Samarendra Prasad Sinha (Co Borrower 1)	Dt: 26-07-2019, RS. 4089197/-, (Rs. Forty lakh Eighty Nine Thousand One Hundred Ninety Seven Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Flat No- C 144, Block-C, Gali No 12, Khasra No. 685/442, Kanti Nagar Extn, Village Udhian Pur, Shahdara, Delhi, New Delhi-110015 Boundaries As :- North :- Part Of Plot South :- Part Of Plot East :- Part Of Plot West :- Property Of Others	Rs.3130000/-, (Rs. Thirty One lakh Thirty Thousand Only)	Rs.313000/-, (Rs. Three lakh Thirteen Thousand Only)	Rs. 5643582/-, (Rs. Fifty Six lakh Forty Three Thousand Five Hundred Eighty Two Only)
Loan Code No. 00001531, Delhi (Branch), Rashid Saifi (Borrower), Nisha (Co Borrower 1)	Dt: 29-01-2019, RS. 2750345/-, (Rs. Twenty Seven lakh Fifty Three Thousand Three Hundred Forty Five Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Plot No-C 144, Block-C, Gali No 12, Khasra No. 685/442, Kanti Nagar Extn, Village Udhian Pur, Shahdara, Delhi, New Delhi-110015 Boundaries As :- North :- Part Of Plot South :- Part Of Plot East :- Part Of Plot West :- Property Of Others	Rs.4250000/-, (Rs. Forty Two lakh Fifty Thousand Only)	Rs.425000/-, (Rs. Four lakh Fifty Thousand Only)	Rs. 4088098/-, (Rs. Forty Lakh Eighty Eight Thousand Nine Hundred Eighty Only)
Loan Code No. 00000625, Delhi (Branch), Suninder Khurana (Borrower), Geeta Khurana (Co Borrower 1)	Dt: 20-07-2018, RS. 7246870/-, (Rs. Seventy Two lakh Forty Six Thousand Eight Hundred Seventy Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Plot No. H-150, Third Floor, With Roof Right, Block H, Near Brain International School, Vikas Puri, Delhi, New Delhi-110018, Delhi. Boundaries As :- North :- Plot No. H-149 South :- Plot No. H-151 East: Road West: Road	Rs.8130000/-, (Rs. Eighty One lakh Thirty Thousand Only)	Rs.813000/-, (Rs. Eighty One lakh Thirty Thousand Only)	Rs. 8889455/-, (Rs. Eighty Eight lakh Eighty Nine Thousand Four Hundred Fifty Five Only)
Loan Code No. 00000587, Delhi (Branch), Lali Maity (Borrower), Pooja Maity (Co Borrower 1)	Dt: 29-01-2019, RS. 1739416/-, (Rs. Seventeen lakh Thirty Nine Thousand Four Hundred Sixteen Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Flat No-717, Pocket-C1, 4th Floor Dda Flat, Siraspur, Delhi, New Delhi-110041 Boundaries As :- North :- Na South :- Na East :- Na West :- Na	Rs.1150000/-, (Rs. Eleven lakh Fifty Thousand Only)	Rs.115000/-, (Rs. One lakh Fifteen Thousand Only)	Rs. 2585796/-, (Rs. Twenty Five lakh Eighty Five Thousand Seven Hundred Ninety Six Only)
Loan Code No. 00003843, Delhi (Branch), Deepak Sharma (Borrower), Manish Sharma (Co Borrower 1), Swati Sharma (Co Borrower 2), Nivedita Sharma (Guarantor 1)	Dt: 20-02-2020, RS. 4102479/-, (Rs. Forty One lakh Two Thousand Four Hundred Seventy Nine Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Property No. - 1/11053, Plot No.- 200 Khasra No.- 42, Village-Udhampur Subhash Park, Naveen Shahdara New Delhi Gautam Budh Nagar Delhi 110032 Boundaries As :- North :- Road 15 Ft. South :- Other Property East :- Other Property West :- Na	Rs.6140000/-, (Rs. Sixty One lakh Forty Thousand Only)	Rs.614000/-, (Rs. Six lakh Fourteen Thousand Nine Only)	Rs. 4530099/-, (Rs. Forty Five lakh Thirty Thousand Ninety Nine Only)
Loan Code No. 00000246, Delhi (Branch), Liana Tourism Pvt Ltd (Borrower), Archana Shishodia (Co Borrower 1), Pradeep Shishodia (Co Borrower 2)	Dt: 28-08-2018, RS. 1900385/-, (Rs. Nineteen lakh Three Hundred Eighty Five Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Shop No-23, First Floor RDC Raj Nagar, Ghaziabad, Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh. Boundaries As :- North :- Na South :- Na East:-Na West:- Shop No-22	Rs. 2810000/-, (Rs. Twenty Eight lakh Ten Thousand Only)	Rs.281000/-, (Rs. Two lakh Eighty One Thousand Only)	Rs. 3044570/-, (Rs. Thirty lakh Forty Four Thousand Five Hundred Seventy Only)
Loan Code No. 00000731, Delhi (Branch), Lokendra Verma (Borrower), R K Bricks (Co Borrower 1), Rajat Verma (Co Borrower 2), Kunal Verma (Guarantor 1), Savita Verma (Guarantor 2), Sohan Biri (Guarantor 3)	Dt: 20-07-2018, RS. 22803250/-, (Rs. Two Crore Twenty Eight lakh Three Hundred Fifty Only) & Dt: 19-08-2020, RS. 6851359/-, (Rs. Sixty Eight lakh Fifty Eight Thousand Three Hundred Fifty Nine Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Plot No. 28 Block D Kaushambi, Ghaziabad, Ghaziabad-201010, Uttar Pradesh. Boundaries As :- North :- 24 Mtr Road South :- Plot No -17 East: Plot No -27 West: Plot No -27	Rs.44600000/-, (Rs. Four Crore Forty Six lakh Only)	Rs.4460000/-, (Rs. Four Crore Forty Six lakh Only)	Rs. 29944289/-, (Rs. Two Crore Ninety Nine lakh Forty Four Thousand Two Hundred Eighty Nine Only) & Rs. 8757879/-, (Rs. Eighty Seven lakh Fifty Seven Thousand Eight Hundred Seventy Nine Only)
Loan Code No. 00043770, Delhi (Branch), Dinesh Singh (Borrower), Chanchal Kumari (Guarantor 4)	Dt: 26-09-2019, RS. 1961642/-, (Rs. Nineteen lakh Sixty One Thousand Six Hundred Forty Two Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Property No. 16 Block-I, First Floor, 201 Mahavir Enclave-III, New Delhi, New Delhi-110045 Boundaries As :- North :- Road South :- Road East :- Plot No. Rz-1/15-A West :- Other Plot	Rs.2060000/-, (Rs. Twenty lakh Sixty Thousand Only)	Rs.206000/-, (Rs. Two lakh Six Thousand Only)	Rs. 2623023/-, (Rs. Twenty Six lakh Twenty Three Thousand Three Only)
Loan Code No. 00000389, Delhi (Branch), Ram Shakal (Borrower), Maina Devi (Co Borrower 1)	Dt: 23-04-2019, RS. 1281677/-, (Rs. Twelve lakh Eighty One Thousand Six Hundred Seventy Seven Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Flat No. 6 1st Floor Pocket 3, Block C-1 Sector 34, Rohini, New Delhi-110085 Boundaries As :- North :- Na South :- Na East :- Na West :- Na	Rs.1160000/-, (Rs. Eleven lakh Sixty Thousand Only)	Rs.116000/-, (Rs. One lakh Sixteen Thousand Only)	Rs.1795567/-, (Rs. Seventeen lakh Ninety Five Thousand Five Hundred Sixty Seven Only)

SBEC SUGAR LIMITED
Regd. Off. : Village Loyal Malakpur, Tehsil Baraut, District Bagpat, Uttar Pradesh - 250611
CIN: L15421UP1991PLC019160
Tel.: +01234-259206 Fax : +91-1234-259200
E-mail: investors@sbecsugar.com, Website: www.sbecsugar.com

EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022.

Sr. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		3 Months ended 31 March, 2022	Year ended 31 March, 2022	Corresponding 3 Months ended 31 March, 2021	3 Months ended 31 March, 2022	Year ended 31 March, 2022	Corresponding 3 Months ended 31 March, 2021
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	15,352.61	60,302.63	16,178.36	15,931.61	62,055.28	16,711.33
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,446.63	(1,065.77)	2,201.54	1,672.30	(742.60)	2,260.80
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,446.63	(1,065.77)	2,201.54	1,672.30	(742.60)	2,260.80
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	1,446.63	(1,065.77)	2,201.54	1,671.69	(857.03)	2,260.80
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	1,371.05	(1,140.71)	2,224.57	1,608.20	(920.45)	2,286.16
6	Equity Share Capital	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)	3.03	(2.24)	4.62	3.68	(1.63)	4.74
a	Basic	3.03	(2.24)	4.62	3.68	(1.63)	4.74
b	Diluted	3.03	(2.24)	4.62	3.68	(1.63)	4.74

NOTE:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.sbecsugar.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their meetings held on 25th May, 2022.
- The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (As amended).

By Order of the Board for SBEC SUGAR LIMITED
Sd/-
Umesh Kumar Modi
Chairman and President
DIN: 00002757

Place: New Delhi
Date : 25th May, 2022

Loan Code / Branch Name/ Borrower(s) / Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Final Property Address	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP)	Outstanding Amount (29-04-2022)
Loan Code No. 00043412, Delhi (Branch), Sushma Rani (Borrower), Durga Prasad (Co Borrower 1)	Dt: 19-11-2019, RS. 4261553/-, (Rs. Forty Two lakh Sixty One Thousand Five Hundred Fifty Three Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Prop No-C-27, Second Floor Lhs Without Roof Khasra No-651 Block-C Sawan Park Ashok Vihar Phase-III Village Wazirpur Delhi New Delhi Delhi -110052 Boundaries As :- North :- Other Property South :- Property No-C-26 East :- Property No-C-29 West :- Property No - C-29	Rs.4890000/-, (Rs. Forty Eight lakh Ninety Thousand Only)	Rs.489000/-, (Rs. Four lakh Eighty Nine Thousand Only)	Rs. 5664431/-, (Rs. Fifty Six lakh Sixty Four Thousand Four Hundred Thirty One Only)
Loan Code No. 00041433, Delhi (Branch), Kanchan Kumar (Borrower), Deepak Gonka (Co Borrower 1)	Dt: 19-11-2019, RS. 24330435/-, (Rs. Two Crore Forty Three lakh Thirty Four Hundred Thirty Five Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- House No-14/3 Kachnar Marg DLF Phase-1 Gurgaon Gurgaon Haryana - 122001 Boundaries As :- North :- Road South :- KCM-14/1 East: KCM-14/4 West: Na	Rs.2100000/-, (Rs. Two Crore Sixty Thousand Only)	Rs.210000/-, (Rs. Two lakh Ten Thousand Only)	Rs. 32590908/-, (Rs. Three Crore Twenty Five lakh Ninety Thousand Nine Hundred Eight Only)
Loan Code No. 00000258, Delhi (Branch), Kamlesh Kishor Jha (Borrower), Sanjay (Guarantor 4)	Dt: 28-08-2019, RS. 3301264/-, (Rs. Thirty Three lakh One Thousand Two Hundred Sixty Four Only)	All The Piece And Parcel Of The Property Having An Extent :- Property No. A-7, 1st Floor Lhs Portion, Plot No. 7, Khasra No. 82/8, Vill Palam Mahavir Enclave Mahavir Enclave New Delhi New Delhi Delhi -110045 Boundaries As :- North :- Property No. A- 6 South :- Rhs Flat & Plot No-8 East: Gali 10Ft Wide West: Road 10Ft Wide	Rs.3050000/-, (Rs. Thirty lakh Fifty Thousand Only)	Rs.305000/-, (Rs. Three lakh Five Thousand Only)	Rs 4170372/-, (Rs. Forty Seven lakh Ten Thousand Three Hundred Seventy Two Only)

DATE OF E-AUCTION : 28-06-2022, FROM 11.00 P.M. TO 3.00 P.M (WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES EACH), LAST DATE OF SUBMISSION OF BID : 27-06-2022, BEFORE 4.00 P.M.

TERMS AND CONDITIONS OF THE AUCTION:

The sale shall be subject to the terms & conditions as described below:-

- The asset will not be sold below the reserve price
- In case of single bidder, the bidder/purchaser has to bid with an increment amount of Rs.10,000/-.
- Auction/bidding shall only by "online electronic mode" through the website of the service provider i.e Company Name: C1 India Private Limited/Name of Service Provider: **Mr. Dharami Krishna**, Contact Number: 9948182222, Site: <https://www.bankauctions.com>.
- Care has been taken to include adequate particulars of Secured Assets in the Schedule herein above. The Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.
- The intending bidders are advised to go through the portal <https://www.bankauctions.com> for detailed terms and conditions for e-Auction sale before submitting their bids and taking part in the e-Auction sale proceedings and contact the respective Authorized Officer for the concerned property as mentioned herein above against the property.
- Auction shall commence at one increment above the Reserve Price and bidders shall be free to bid among themselves by improving their offer with minimum incremental amount stated herein above.
- 10% Earnest Money Deposit (EMD) DD shall be deposited on or before 27-06-2022, before 4:00 P.M. to the designated Branch in favor of Piramal Capital & Housing Finance Limited or PCHFL, along with fully filled bid form and Tender/Sealed Bid/offer in the prescribed tender forms along KYC.** Self attested true copy of Identity Card containing Photograph and Residential Address and PAN card of the intending bidder, issued by Govt. of India. Original of the document should be made available for verification by the concerned Authorized Officer. b) Intending Bidder's Mobile Number and E-Mail address. c) Intending Bidder's Bank Account details for the purpose of refund of EMD.
- The intended bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact **Mr. Dharami Krishna**, Contact Number: 9948182222, Help Line E-mail ID: https://www.bankauctions.com and For any property related query may contact PCHFL Authorized Officer - Kishalay Kartkey-9999702914 during the office hours on any working days.
- In case of stay of sale or Recovery proceeding by any superior court of competent jurisdiction, the auction may either be postponed/cancelled in compliance of such order, without any further notice and the persons participating in the sale shall have no right to claim damages, compensation or cost for such postponement/cancellation etc.
- Only those bidders holding valid user ID and Password and confirmed payment of EMD through NEFT /RTGS shall be permitted to participate in the on line e-auction. The Authorized Officer reserves the right to accept or reject any or all bids. Further, the Authorized Officer reserves the right to postpone or cancel or adjourn or discontinue the Auction or vary the terms of the Auction at any time before conclusion of the Auction process, without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final.
- The successful bidder shall have to pay 25% of the purchase amount immediately (including Earnest Money Already paid) from knocking down of bid in his/her favor, in the same mode as stipulated in clause 7 above. The balance of the purchase price shall have to be

